September 4, 2024

To,

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex

Bandra (East), Mumbai- 400 051

Symbol: BLBLIMITED

To,

The Manager (Listing)
BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001

ISIN: INE791A01024

Scrip Code: 532290

Sub: Submission of Newspapers Advertisement regarding Notice of 43rd Annual General Meeting and Remote E-Voting Information

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to the applicable Regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published today i.e. September 4, 2024 in "The Financial Express" (English, all Editions) and "Jansatta" (Hindi, Local Edition) newspapers, informing the members about the dispatch (in electronic mode only) of Notice of 43rd Annual General Meeting along with Annual Report for F.Y. 2023-24 and Remote E-voting information.

This is for your kind information and records.

Thanking You.

For **BLB Limited**



Nishant Garud Company Secretary M. No.:- A 35026

Encl: As above

BLB Limited CIN: L67120DL1981PLC354823
Corporate Member: NSE

FINANCIAL EXPRESS

PRAG BOSIMI SYNTHETICS LIMITED CIN: L17124AS1987PLC002758

Regd Off.: House no. 19, Ambikagiri Nagar, Milan Path, R.G.Barua Road, Guwahati Assam-781024 IN Tel: +91- 0360 2200473 Website: www.pragbosimi.com E-mail: secretarial@bosimi.com Notice of Annual General Meeting (AGM)

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Thursday, the 26th day of September, 2024 at 3.30 P.M. a through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as stated in the Notice of AGM.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 19th September 2024 to 26th September 2024 (both days inclusive) for such purpose in terms of Section 91 of the Companies Act, 2013.

Annual Report 2023-24 and Notice convening the said AGM together with instructions for e-voting has already been dispatched to the Shareholders of the Company through email on 3rd September 2024 and the same is also available at the website of the Company www.pragbosimi.com and can be downloaded from there or alternatively can be downloaded from https://www.evoting.nsdl.com

The shareholders are requested to register their email address and change therein from time to time by writing to RTA/Depository.

In terms of Section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) amended Rules 2015, and Regulation 44 of SEBI LODR Regulations, 2015, the Company has arranged facilities for members to exercise their rights to vote on the resolution proposed to be considered at the said AGM may be transacted by casting of votes by the members using electronic voting system from a place other than that of the venue of the aforesaid AGM (remote e-voting) which will be managed by National Securities Depository (India) Ltd. (NSDL).

The remote e-voting will commence on Monday, Sept 23rd, 2024 (9.00 AM) and will end on Wednesday, Sept 25th, 2024 (5.00 pm). During the e-voting period, members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. 19th September 2024, will be eligible to cast their vote electronically. Detailed instructions pertaining to e-voting, Members may please refer Notes to Notice of the Annual General Meeting. In case of queries or grievances pertaining to the e-voting procedure, Members may get in touch with RTA of the Company.

The facility of voting through evoting shall also be made available after the AGM to the Members through NSDL Portal for half hour. Members, who have not casted their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right to vote after the Meeting through evoting. For those members, who have acquired shares after dispatch of AGM Notice; can exercise their voting rights in the same manner as indicated in the Notes to Notice and can ask RTA to provide AGM Notice together with Annual Report through email.

For Queries/grievances related to remote e-voting, members may refer to the following person -Ashok Sherugar, AVP - Technology Group; Address - Link Intime India Private Limited C 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400083

49186000/7506054546, Email ID: evoting@linkintime.co.in, ashok.sherugar@linkintime.co.in For Prag Bosimi Synthetics Limited.

Place: Mumbai Date: 3rd September 2024

Raktim Kumar Das Whole Time Director DIN No.: 05115126



Registered Office: Sohan Nagar, P. O. Charubeta, Khatima- 262308, Distt Udham Singh Nagar, Uttarakhand, Phone : (05943) 250153-57 Fex : (05943) 250158 Corporate Office: Plot No. 11, Block-A. Infocity-I. Sector-34, Gurgaon-122001, Harvana. Phone: (0124) 4572100, Fax: (0124) 4572199

> Website: www.esterindustries.com Email: investor@ester.in NOTICE OF THE 38™ ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of Ester Industries Limited ("the Company") will be held through Video Conference (VC) Other Audio-Visual Means (OAVM) on Friday, 27th September 2024 at 12:00 Noon (IST) to transact such businesses as set out in the Notice of AGM. The Registered Office of the Company shall be the deemed venue for this meeting

In accordance with General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), the Notice of AGM and the Annual Report including the Audited Financial Statements for the financial year 2023-24 along with all other related documents required to be attached thereto have been sent on Tuesday, 3rd September 2024 by electronic mode to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company, with their Depository Participant(s) or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) (viz. MAS Services Limited) The aforesaid documents are available on the Company's website at www.esterindustries.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE .imited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com) and may also be accessed on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com

nstructions for Remote E-voting and E-voting during AGM:

- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at AGM Members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on Friday, 20th September 2024 (cut-off date), shall cast their votes through electronic voting facility (remote e-voting/e-voting during the AGM) provided by NSDL. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the AGM.
- The procedure and detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM by the Members holding shares in electronic mode/physical mode and for those who have not registered their e-mail addresses have been provided in the Notice of AGM. The manner in which (a) persons who become Members of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on Cut-of date (mentioned herein); (b) Members who have forgotten their User ID and password, can obtain/generate the User ID and Password, has also been provided
- The remote e-voting period will commence at 9.00 A.M. (IST) on Tuesday, 24th September, 2024 and will end at 5.00 P.M. (IST) on Thursday, 26th September, 2024. The remote e-voting module shall be disabled for voting and Members shall not be allowed to cast their votes thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through electronic voting system will also be available a
- the time of AGM and the Members attending the AGM who have not cast their votes by remote e-voting shall be eligible to cast their votes during the AGM Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however, they shall not be eligible to vote at the meeting. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies
- (Management and Administration) Rules, 2014 the Register of Member and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, 21th September, 2024 to Friday, 27th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.
- The Company has appointed Mr. Akash Jain, Practicing Company Secretar (FCS: F9617 and COP No. 9432), as the Scrutinizer, to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner.

n case of any queries/grievances, piease refer to the 'Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and 'e-voting user manual' for Members available in the download section of the e-voting website of NSDi. https://www.evoting.nsdl.com/ . Members who need assistance before or during the AGM with use of technology, can a) Call or Toli free no.: 022 - 4886 7000; or b) Contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at the designated email id: evoting@nsdl.com

For Ester Industries Limited Poornima Gupta

Place- Gurugram

in due course.

Date: September 03, 2024

Date- 3" September, 2024 Company Secretary & Compliance Officer

BLB LIMITED

CIN: L67120DL1981PLC354823 Regd. Office: H. No. 4760-61/23, 3" Floor, Ansari Road. Daryaganj, New Delhi-110002 Tel: 011- 49325600; E-mail: intoblb@blblimited.com

Website: www.blblimited.com NOTICE OF 43RD ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (AGM

of the members of M/s. BLB Limited (Company) will be convened of Thursday, September 26, 2024 at 11:30 a.m. (IST) via Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") ONLY transact the businesses as set out in the Notice of the 43° AGM. compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 201. rules made thereunder and SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with read with Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 10/202 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 and December 28 2022 followed by General Circular No. 09/2023 dated September 25 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collective) referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD CFD-PoD-2/P/CiR/2023/167 dated October 07, 2023 (hereinafte) referred to as "SEBI Circulars").

The venue of 43" AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company. Members participating through VC/ OAVM shall be reckaned for the purpose of quarum. Since this AGM is being held pursuant to the MCA and SEBI Circulars through VC/ OAVM, the requirement of physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for this AGM.

The Notice of 43th AGM and Annual Report of the Company for the F 2023-24 have been sent in electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registra and Share Transfer Agent (RTA). The electronic dispatch of Notice of 43" AGM and Annual Report for FY 2023-24 was completed or September 03, 2024. The aforesaid documents are available on the website of the Company i.e. www.blblimited.com and may also be accessed from the websites of Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE)a www.nseindia.com and www.bsaindia.com respectively. The AGN notice is also available on the website of National Securities Depositories Limited (NSDL) at www.eyoting.nsdl.com.

Pursuant to Section 108 of Companies Act. 2013 (Act) read with Rul 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the Secretaria Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the institute o Company Secretaries of India, each as amended from time to time the Company is providing to its Members, the facility of remote e-voting before the AGM and during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) to facilitate voting through electronic means. Mr. Rupesh Agarwal, Practicing Company Secretary, (Membership N

ACS 16302), failing him Mr. Shashikant Tiwari (Membership No. FC3 11919) Partner(s) M/s. Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process before and during the AGM in a fair and transparent manner.

he detailed instructions for e-voting and joining through VC/ OVAN are given in the Notice of 43" AGM. Members are requested to carefully go through the instructions before casting their vote through e-voting The details as required pursuant to the Act and Rules are as under a. The remote e-voting period will commence at 09:00 a.m. (IST) on

Monday, September 23, 2024 and shall end at 05:00 p.m. (IST) on Wednesday, September 25, 2024. The remote e-voting module will be disabled by the NSDL thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. The voting rights of the Members shall be in proportion to their

share of the paid-up equity share capital of the Company as or Thursday, September 19, 2024 ('Cut-Off Date'). The facility of remote e-voting shall also be made available during the Meetin and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before/ during the AGM. Any person who acquires shares and becomes a Member of the

Company after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. September 19, 2024, may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request to NSDL at evoling@nsdi.co.in or may contact at 022 - 4880 7000. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information purpose only The Members who have already cast their votes by remote

e-voting prior to the AGM will have right to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their votes again on such resolution(s) for which the Member has already cast the vote through remote e-voting prior to the AGM. Once the member cast vote on a resolution, the member shall not be allowed to change Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM and

e-voting during the AGM is provided in the notice for 43" AGM. Members who need assistance before or during the AGM, call contact NSDL at 022 - 4886 7000 or send arequest a evoting@nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager NSDL, at designated e-mail ld: evoting@nsdl.co.in.

Members who have not registered their e-mail ID may get the sam registered/ updated with Company/ RTA or Depository to cast their vote(s) through remote e-voting before the AGM or through e-voting

The result of the remote e-voting before and during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The results declared along with Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website www.blblimited.com and on website of NSDI www.evoting.nsdl.com and website of Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) a www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

Nishant Garud Place: New Delhi

Date: September 3, 2024 Company Secretary

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

whatsoever.

MONEY BOXX MONEYBOXX FINANCE LIMITED Registered Office: 523-A. Somdutt Chamber-II. 9. Bhikaii Cama Place.

New Delhi - 110066 CIN: L30007DL1994PLC260191 | Tel: 011-45657452|

info@moneyboxxfinance.com | www.moneyboxxfinance.com |

Notice of 30th Annual General Meeting and Remote E-Voting information

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Moneyboxx Finance Limited ("Company") will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual means (" OAVM") on Wednesday, September 25, 2024, at 11:30 A.M. to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM. This is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard the latest being dated September 25, 2023 by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circulars dated May 12, 2020 and other relevant circulars including Circulars dated January 5, 2023 and October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India

The Company has sent the Integrated Annual Report along with the Notice convening AGM on September 03, 2024, through electronic mode to the Members whose email addresses are registered with the Company and / or Depositories in accordance with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities Exchange Board of India.

The Integrated Annual Report along with the Notice convening the AGM is also available on the website of

the Company at www.moneyboxxfinance.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depositories Limited ("NSDL') at www.evoting.nsdl.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2), the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening the AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Wednesday, September 18, 2024 ('cut-off date').

The remote e-voting period shall be available during the following period:

Commencement of remote e-voting period Friday, September 20, 2024 (9:00 A.M.) Tuesday, September 24, 2024 (5:00 P.M.) Conclusion of remote e-voting period

During this period, the members can cast their vote electronically in a manner as set out in the AGM Notice. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after 5:00 P.M. IST on September 24, 2024. Those Members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice

has been sent electronically by the Company and holds shares as on the cut-off date; may obtain the login ID and password by sending a request to helpdesk at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, he/she can use his/her existing User ID and password for casting the votes.

In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at www.evotingindia.nsdl.com, under help section or contact at toll free number 1800 1020 990/1800 224 430. In case of any grievances relating to e-voting, please contact at the designated email ID of NSDL i.e., evoting@nsdl.co.in or contact Amit Vishal, Deputy Vice President-NSDL at Mr. Shashank Pashine from Shashank Pashine & Associates, Practicing Company Secretaries has been

appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process before/during the AGM in a fair and The details of the AGM are available on the website of the Company at www.moneyboxxfinance.com, NSDL

at www.evoting.nsdl.com. BSE Limited at www.bseindia.com. For Moneyboxx Finance Limited

Place: Gurugram

Date: September 03, 2024

Company Secretary & Compliance Officer

Semant Juneja

DOSHION WATER UMBRELLA (CUDDALORE) PRIVATE LIMITED (In Liquidation) Reg. Off; A-103/10, Tirth Bhumi Apartment, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380 006, Gujarat, India. 7th E-AUCTION SALE NOTICE UNDER INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016

The following Assets and Properties of DOSHION WATER UMBRELLA (CUDDALORE) PRIVATE UMITED (in

Liquidation) having CIN: U41000GJ2011FTC064934 forming part of Liquidation Estate are for sale by the Liquidator through e-auction on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER THERE IS AND NO RECOURSE BASIS" as per details mentioned in the table given below. The sale will be done through the e-auction platform (With unlimited extension of 5 min each): https://nbid.nesl.co.in/app/login. Reserve Price **EMD Amount Bid Incremental Asset Description** Value (In Rs.)

Sale of the Cor Date and Time of E Auction	porate Debtor as a Ge an: 03.10.2024 From		м
Sale of the Corporate Debtor as a Going Concern as per Regulation 32(e) of the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016.	INR 13,77,00,000/- (Indian Rupees Thirteen Crore Seventy Seven Lakh Only)	INR 1,37,70,000/- (Indian Rupees One Crore Thirty Seven Lakh Seventy Thousand Only)	INR 13,77,000/ (Indian Rupees Thirteen Lakh Seventy Seven Thousand Only)
Last Date for Submission of Eligibility Documents			18/09/2024
Date of Intimation of Qualified Bidders		21/09/2024	
Last date for inspection			28/09/2024
Last date for EMD			01/10/2024
E-Auction Date			03/10/2024

(1) EMD can be deposited either by remittance into the account or through demand draft. (2) Interested applicants may refer to the COMPLETE E- AUCTION PROCESS INFORMATION DOCUMENT containing details of terms and conditions of online E-Auction, E-Auction Bid form, Eligibility Criteria, Declaration by Bidders, EMD requirement etc. available at https://nbid.nesl.co.in/app/login or through E Mall : cirp.doshionwater@gmail.com (process specific). (3) The Liquidator has right to accept or cancel or extend or modify, etc. any terms and conditions of E-Auction at any time. He has right to reject any of the bid without giving any reasons. He has right to cancel E-Auction at any time. (4) For technical assistance, contact Araventhan S E, Contact no.: +91 93846 76709, Email: araventhanse@nesl.co.in or Gunjan Narula, contact no.: +91 8447018554, Ernail: gunjann@nesl.co.in or for E-Auction details, contact Liquidator, Ph. No. 9428012320, Email: cirp.doshionwater@gmail.com (5) E-Auction platform: https://nbid.nesl.co.ln/app/login. Interested bidders are requested to visit the above-mentioned websites

> Chirag Shah- Liquidator Doshion Water Umbrella Cuddalore Private Limited- under Liquidation IBBI Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P01169/2018-19/11837 AFA No.: AA1/11837/02/011124/106224

Address: 208, Ratnaraj Spring, Opp. HDFC Bank House, Date: 04.09.2024 Besides Navnirman Co-op Bank, Navrangpura, Ahmedabad-380009. Place: Ahmedabad

Enser Communications Limited



For BLB Limited

Registered Office: 5th Floor 501 - 506, Arihant Aura, Turbhe, Navi Mumbai Sanpada,

Thane, Maharashtra -400703 Telephone No.- +91-124-4258077

DESTINY LOGISTICS & INFRA LIMITED CIN: L63090WB2011PLC165520

Regd. Office: 375, Dakshindari Road, Parganas North, Kolkata, West Bengal, India, 700048 Website: www.destinvinfra.in Email ID: cs@destinvinfra.in Phone No.: 033 - 4008 7463

NOTICE OF 13th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIOVISUAL MEANS (OAVM)

Members are hereby informed that the Annual General Meeting ('AGM') of the Shareholders of DESTINY LOGISTICS & INFRA Limited ("the Company") will be held on Friday, 27th September, 2024, at 3:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM'), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ("Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the applicable circulars on the subject matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business as set out in the Notice of AGM.

Members will be able to attend and participate in the AGM by VC/OAVM only. Members attending the AGM through VC/OAVM

will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. In compliance with the applicable circulars

issued by the MCA and SEBI on the subject matter. Notice of AGM will be sent only by electronic mode to all the members whose email addresses are registered with the Depository Participants/Registrar and Transfer Agent/ Company. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with their Depository Participants ("DP") by following procedure prescribed by DP.

The Company has engaged services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company, through NSDL, is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting'). The details such as manner of (i) registering / updating email addresses, (ii) casting vote through remote e-voting/e-voting for the

members including those who are holding shares in physical form or those who have not registered their email addresses with

the Company; and (iii) attending the AGM through VC / OAVM has been set out in the Notice of the AGM which will be emailed

The members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of AGM (being sent electronically) and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting facility at the AGM.

The Notice of AGM will also be made available on the Company's website at: www.destinyinfra.in., and website of the stock exchange, i.e., NSE Limited at www.nseindia.com

> For Destiny Logistics & infra Limited Rekha Bhagat **Managing Director** DIN-03564763



(CIN: L64200MH2008PLC182752)

Email ld: compliance@enser.co.in . Website: www.enser.co.in

NOTICE OF THE 16TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting (AGM) of the members of Enser Communications Limited ("the Company")

will be held on Saturday, September 28, 2024 at 04:45 P.M.(IST) through video conference (VC/OAVM), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No. 14/2020 (dated 8" April 2020), 17/2020 (dated 13th April 2020), 20/2020 (dated 5th May 2020) followed with Circular No. 02/2021 (dated January 13, 2021), 2/2022 (dated 5th May 2022), 3/2022 (dated 5th May 2022), 10/2022 (dated 28.12.2022) and General Circular No. 09/2023 (dated 25th September 2023) issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/04 dated 05th January 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07th October 2023 the Notice of AGM and Annual Report for the financial year ended on 31th March, 2024 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the 16" AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular. The Notice and Annual Report will also be available on the website of the Company www.enser.co.in and on the website(s) of the stock exchanges i.e. National Stock Exchange of India at www.nseindia.com respectively, where the Company's shares are listed. The Notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote

e-voting or by e-voting at the time of AGM and join the AGM through video conference (VC) / other audio-visual means (OAVM) The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., September 21, 2024, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the notice of AGM through electronic voting systems of CDSL. All the members are informed that:

 The Ordinary and the Special Businesses as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means. The remote e-voting shall commence on September 25, 2024, at 9:00 A.M. (IST).

The remote e-voting shall end on September 27, 2024, at 05:00 P.M. (IST).

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 21, 2024 and a person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

Person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending of the notice of AGM and holding shares and eligible to vote, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the AGM. If such a person is already registered with CDSL for e-voting, existing user ID and password can be used for casting vote. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by the CDSL after the aforesaid date and time for voting

and once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change subsequently, b) the members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cutoff date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. Notice is also given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration)

Rules 2014, that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from September 22, 2024 to September 28, 2024 (both days inclusive) on account of Annual General Meeting. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-voting from the CDSL e-voting System, you can write an e-mail to

helodesk.evoting@cdslandia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542/43. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an e-mail to helpdesk evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

> For Enser Communications Limited Muskan Company Secretary and Compliance Officer

EFC (I) LIMITED

Regd. Office: 6th Floor, VB Capitol Building, Range Hill Road, Opp. Hotel Symphony, Bhoslenagar, Shivajinagar, Pune-411007 CiN: L74110PN1984PLC218407 | Tel.: 020 3502 6526

Email Id: compliance@efclimited.in | Website: www.efcirnited.in INFORMATION REGARDING 40TH ANNUAL GENERAL MEETING

The 40th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Monday, September 30; 2024 at 5:00 p.m. (IST), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM.

The Notice of the AGM and the standalone and consolidated audited financial statement for the financial year 2023-24, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent electronically to those members of the Company, whose e-mail address is registered with the Company / Company's Registrar and Transfer Agent Depository Participants / Depositories. The Notice of AGM and the aforesaid documents will elso be available on the Company's website at www.efclimited.in and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited ("BSE") at www.bsgindia.com. Manner of registering/updating e-mail address:

-) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their e-mail address with the Company, are requested to register / update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of the company at www.efclimited.in) duly filled and signed along with requisite supporting documents to Link Intime India Private Limited at C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Maro, Vikhroli (West) b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their
- e-mail address with their Depository Participant(s), are requested to register / update the same with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts. Manner of casting vote(s) through e-voting:

Members can cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through

electronic voting system ("e-voting"). The manner of voting, including voting remotely ("remote e-voting") by mambers holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through InstaMeet. Joining the AGM through VC / DAVM:

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM, through installed, at

https://instameet.linkintime.co.in/. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in the Notice of AGM. Members are requested to carefully read the Notice of the AGM and in particular, instructions

for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting or voting at the AGM For EFC (I) Limited

Aman Gupta

Company Secretary

Dated on this September 3, 2024 at Pune.



DEE DEVELOPMENT ENGINEERS LIMITED CIN: L74140HR1988PLC030225

Registered Office: Unit-1, Prithla-Tatarpur Road, Village Tatarpur, Faridabad, Palwal 121102

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of DEE Development Engineers Limited (the "Company") will be held on Friday, September 27th, 2024, at 01:00 P.M. (IST) at the registered office of the Company at Unit 1, Prithla - Tatarpur Road Village Tatarpur, Palwal, Faridabad, Haryana, 121102 to transact the business, as set out in the Notice of the AGM. Notice of the AGM setting out the business to be transacted thereat, along with Proxy

NOTICE OF THE 35th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Form, Annual Report of the Company for the year ended March 31st, 2024 have been sent in electronic mode on September 3rd, 2024 to the members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s). The notice of the AGM including Attendance slip and Annual Report for Financial

year 2023-24 is also available on the Company's website at www.deepiping.com under Investors Tab and stock exchange websites i.e., www.bseindia.com and www. nseindia.com. AGM notice is also available at www.evoting.nsdl.com on the website of the National Securities Depository Limited (NSDL). Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules.

2014, as amended, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the facility to its members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on Friday, September 20th, 2024 (cut-off date), for casting their votes electronically on each item as set forth in the Notice of AGM through the electronic voting system provided by National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting).

All members are hereby informed that:

- 1. The ordinary and special business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means; 2. Date of completion of dispatch of Notice of AGM and Annual Report: September
- 3. The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 24th, 2024 at 9:00
 - The remote e-voting shall end on Thursday, September 26th, 2024 at 5:00 P.M.
- 5. The remote e-voting shall not be allowed beyond Thursday, September 26th, 2024, 5:00 P.M.(IST);
- the AGM will be Friday, September 20th, 2024; Any person, who acquires the shares of the Company and becomes a member of Company after dispatch of Notice of AGM and holds shares as of cut-off date i.e. Friday, September 20th, 2024 may obtain the Login ID and password by sending a request to the Company or its RTA at the address/email IDs given under point

The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or at

e-voting, then such member shall use the existing User ID and password for The facility for voting through "ballot paper system" shall be made available at the venue of the AGM and the members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-voting, shall also be eligible to exercise their right to cast

no. 13 below. However, if the member is already registered with NSDL for remote

- their vote at the meeting through "electronic voting system"; 9. The members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the
- 10. A person, whose name is registered in the Register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday, September 20th, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through "ballot paper system" at the AGM;
- 11. Shareholders holding shares in physical form (who have not registered their e-mail address) are requested to furnish their e-mail addresses and mobile numbers with the Company's RTA viz. Link Intime India Private Limited; 12. Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail
- addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or ballot paper system at the AGM by following the below process for obtaining the e-voting credentials: In case of shares held in physical form, please provide copy of the signed request letter mentioning the Folio Number, name and address of the shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), Self-attested copy of the

PAN card and self-attested copy of any document (e.g. Driving License, Election

Identity Card, Passport) in support of the address of the shareholder by email

- to RTA E-mail ld: rmt.helpdesk@linkintime.co.in. or to the Company E-mail ld: secretarial@deepiping.com. Members holding share(s) in electronic mode; by registering/updating their e-mail ID in respect of demat holdings with the respective DPs by following the procedure prescribed by the DPs for receiving all communications from the
- c. In addition to the aforesaid the Company has set up a process for the limited purpose of allowing members to temporarily update their email addresses by accessing the following link: https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/ Email Register.html members can update their email addresses to receive
- shareholders' communications, including the Annual Report and the AGM Notice. 13. In case of any queries, the members may call on 012-75248345. Members may also contact:

Link Intime India

Private Limited

3rd Floor, Naman C 101, 1st Floor, 247 Unit 1, Prithla-Tatarpur Chamber, Plot C-32, Park Lal Bahadur Road Village Tatarpur, Shastri Marg, Vikhroli G-Block, Bandra Kurla Palwal, Faridabad, Complex, Bandra East, (West), Mumbai, Haryana, 121102 Mumbai, Maharashtra Maharashtra, 400083 - 400 051 Ms. Mary George Mr. Abhishek Mishra Mr. Ranian Kumar Name & **Designation** (Senior Manager) (Sr. Associate Vice Sarangi (Company Secretary & President) Compliance Officer) **Phone** 011-23353814 022-49182183 012-75248345 E-mail abhishekm@nsdl.com secretarial@deepiping. mary.george@ linkintime.co.in

The said notice may be accessed on the Company's website www.deepiping.com under "Shareholder Information".

For DEE Development Engineers Limited

Ranjan Kumar Sarangi **Company Secretary and Compliance Officer** Membership No.: F 8604

DEE Development

Engineers Limited

Place: Kolkata

financialexp.epapr.in

Date: 84.09:2024

Place: Mumbai

New Delhi

Place: Mumbai

Particulars

Place: Palwal

National Securities

Depository Limited

Date: 03.09.2024

1—मी सशांक देव सिंह पुत्र भी आर. एल. सिंह (ज्यारकर्ता, बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता) मकान नं. १२३ / ३, महर्षि नगर, रायपुर, आईआईएम रोड, लखनक — 226013 2-श्रीमती साधना सिंह पत्नी श्री शशांक देव सिंह (उधारकर्ता एवं जमानतकती) मकान नं. 123/3, महर्षि नगर, रायपुर, आईआईएम

चेड, लखनक – 226013 प्रिय महोदय. ऋण जाता— श्री कशांक देव सिंह एवं श्रीमती साधना सिंह (50281888842) में पूर्व में जारी की गई SARFAES। कार्रवाई वापस ली जाती है।

शीर्षकित विषय के सबर्भ में बैंक ने SARFAES! अधिनियम की धारा 13(2) ने ताहरा दिन्तक 08 / 05 / 2019 को मांग ओटिस और SARFAES! अधिनेयम क धारा 13(4) के तहत दिनाक 08/11/2019 को कब्जे का नोटिस के साथ ऋण खाते

के चिलाफ SARFAESI कार्रवर्ज शुरू की है। इस संबंध में हम आपको सुचित करते हैं कि कुछ तकनीकी कारणों से हम अपनी पूर SARFAES। कार्रवाई जैसे कि दिनाक 08/05/2019 को पांग नोटिस और दिनांक 08/11/2019, को कब्ज़े का नोईटेस वापस ले रहे हैं। बैंक मविष्य में आपके

दिनांक -03.09.2024 स्थान - श्रेशनक

खिल्लाफ SARFAESI कार्रकाई शुरू करेगा।

यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है।

प्राधिकृत अधिकारी इंडियम बैक

KAIROSOFT AI SOLUTIONS LIMITED (FORMERLY KNOWN AS PANKAJ PIYUSH TRADE AND

INVESTMENT LIMITED) CIN: L22209DL1982PLC256291 Reg. Office: 304, Building No. 61, Vijay Block, Laxmi Nagar Delhi-110092 Email: infopptinvestment@gmail.com, Tel: (011) 44781747

Website: www.pptinvestment.in NOTICE OF THE 42nd (FORTY-TWO)ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING & BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice hereby given that The Forty-Two Annual General Meeting (AGM) of the Members of Kairosoft Ai Solutions Limited (Formerly Known as Pankaj Piyush Trade And Investment Limited) will be held on Wednesday. 25th September, 2024 at 3.00 P.M. IST through Video Conferencing (VC)/other Audio Video Conferencing (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice dated 03nd August, 2024.

In compliance with the MCA and SEBI Circulars, Electronic copies of the Notice of the AGM and Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-2024 have been sent to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. These documents are also available on the website of the Company and can be downloaded from the website www.pptinvestment.in website of stock exchange i.e. BSE at www.bseindia.com respectively and on the website of with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com. The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on September 03, 2024. Members attending the AGM through VClOAVM shall be reckioned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

The remote e-voting period commences on Sunday, September 22, 2024 at 9.00 A.M. and ends on Tuesday, September 24, 2024 at 5.00 P.M. During this period, members of the Company holding shares either In physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 2024 may cast their vote by remote e-voting on the business specified in the Notice of the AGM dated September 03, 2024. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the soft copy of Notice and Annual Report after the cutoff date i.e. September 18, 2024 may follow the same procedure for remote e-voting as given in the Notice of AGM. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the members, the member shall not be allowed to

change it subsequently. Members who are participating in the AGM through Video Conferencing (VC)/other Audio Video Conferencing (OAVM) on September 18, 2024 can cast their vote during the AGM electronically on the businesses specified in the notice of AGM through electronic voting system (E- Voting) of CDSL owever, only those Members, who will be present in the AGM through VC facility and have not casted their vote on the Resolutions through Remote E-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through E-Voting system in the AGM.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no

Book Closure: Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members & Share Transfer Books of the company will remain closed from Thursday, the 19th day of September, 2024 to Wednesday, the 25th day of September, 2024 (both days inclusive)

For Kairosoft Al Solutions Limited

Place: New Delhi Date: 03.09.2024

Sagar Khurana (Managing Director) DIN: 07691118

बीएलबी लिमिटेड

सीआईएन : L67120DL1981PLC354823 पंजीकृत कार्यालय : मकान नं 4760-61/23, 3वां तल, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 दूरमाष : 011-49325600य ई-मेल : infoblb@blblimited.com ; वेबसाइट : www.blblimited.com

43वीं वार्षिक आम बैठक तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि एमएन के सदस्यों की 43वीं वार्षिक आ बैठक (एजीएम) बीएलबी लिमिटेड (कंपनी) गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को सुबह 11:30 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से केवल 43वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके तहत बना गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन में बुलाई जाएर्ग जिसे 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020 और 28 दिसंबर, 2022 व परिपत्र संख्या 14 / 2020, 17 / 2020, 20 / 2020, 10 / 2022 के साथ पढ़ा जाएग उसके बाद कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्य 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 "एमसीए परिपत्र" के रूप में) और सेबी परिपत्र सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2/ सेबी / एचओ / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 (जिसे इसके बाद "सेबी परिपत्र" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)

43वीं एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कोरम के उद्देश्य से गिन जाएगा। चूंकि यह एजीएम एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार वीसी / ओएवीए के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, इस एजीएम के लि सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

43वीं एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपो केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी गई है, जिनके ई-मेल प कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत है। 43वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट क इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 03 सितंबर, 2024 को पूरा हो गया। उपरोक्त दस्तावेज कंपर्न की वेबसाइट यानी www.blblimited.com पर उपलब्ध हैं और इन्हें स्टॉव एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) और BSE लिमिटेड (BSE) की वेबसाइट www.nseindia.com औ www.bseindia.com से भी एक्सेस किया जा सकता है। AGM नोटिस नेशनद सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइव

रिमोट ई-वोटिंग कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के साथ कंपनी (प्रबंधन औ प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम

www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवी मानक ('एसएस-2'), जिनमें से प्रत्येक को समय-समय पर संशोधित किया जात है, के अनुसरण में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदार कर रही है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) क नियुक्त किया है। श्री रूपेश अग्रवाल. कार्यरत कंपनी सचिव, (सदस्यता संख्या एसीएस 16302), उनव

अभाव में श्री शशिकांत तिवारी (सदस्यता संख्या एफसीएस 11919) भागीदार(स मैसर्स। चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके एजीएम से पहले और उसके दौरान रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने व लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

ई—वोटिंग और वीसी ∕ओवीएएँम के माध्यम से शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश 43वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढें। अधिनियम और नियमों के अनुसार आवश्यक विवरण निम्नानुसार हैं।

क. रिमोट ई—वोटिंग अवधि सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को प्रातःकाल 09:00 बजे (IST) से शुरू होगी और बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे (IST

पर समाप्त होगी। इसके बाद छैक्स द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान अधिकार गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 ('कट ऑफ डेट') को

कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे बैठक के दौरान अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल एजीएम र पहले / उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि यानी 19 सितंबर, 2024 तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर एनएसडीएल के अनुरोध भेजकर रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप कर सकता है या 022 - 4886 7000, पर संपर्क कर सकता है। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सुचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, उन्हें एजीएम में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन वे ऐसे प्रस्ताव पर फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे, जिसके लिए सदस्य ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डाल दिया है। एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो सदस्य को बाद में

इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम में शामिल होने और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश 43वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। ड. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे 022 – 4886 7000 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते है या सुश्री पल्लवी म्हात्रे

वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से निर्दिष्ट ई-मेल आईडी evoting@nsdl.co.in. पर संपर्क कर सकते है। जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना

वोट डालने के लिए कंपनी / आरटीए या डिपॉजिटरी के साथ इसे पंजीकृत / अपडेट एजीएम से पहले और उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग का परिणाम एजीएम समापन से 48 घंटे के भीतर घोषित किया जाएगा। स्क्रुटिनाइजर की रिपोर्ट व साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.blblimited.com और

एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की वेबसाइट पर क्रमश : www.nseindia.com और www.bseindia.com पर रखे जाएंगे।

कृते बीएलबी लिमिटेड

तिथि: 02.09.2024

स्थान :नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली निशांत गरुड़ दिनांक : 3 सितंबर, 2024 कंपनी सचिव जनसता | 4 सितंबर, 2024 |

सप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शुद्धिपत्र

नीलामी नोटिस सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा समाचार पत्र यानी फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जनसत्ता में 25-08-2024 को उधारकर्ता: **भगवान स्वरूप** में प्रकाशित किया गया था. जिसमें ईमेल आईडी को delhi@.c1india.com info@bankauctions.in के रूप में पढ़ा जाना था।

नीलामी नोटिस का अन्य सारांश वही रहेगा।

प्राधिकृत अधिकारी,

सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

वसलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रेल सुरक्षा बल ने करीब

ए एफ एंटरप्राइजेज लिमिटेड CIN: L18100DL1983PLC016354

पंजीकृत कार्यालय: एव १६/१८, बेसमेंट वी पोर्शन, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-११००८ कॉपरिट कार्यालय: पर्नेट नंबर ८, संक्टर-५, नेन मधुरा रोड, करीदाखाँद, हरियाणा-१२१००६ हमेल आहरी: info afenterprises@gmail.com; बैक्साहर: www.afenterprisesItd.in

इकतालीसर्वी (41वीं)वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग और वुक क्लोजर की जानकारी एतद द्वारा खचित किया जाता है कि ए एफ एंटरप्राइजेज लिमिटेड के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) ब्रथवार, 25 सितंबर, 2024 को अपरास्त्र 3.00 बजे 151 पर बीहियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीहियो कॉन्फ्रेंसिंग (ऑएवीएम) के माध्यम से अध्योजित की जाएगी. ताकि 29 अगस्त, 2024 के मोटिस में निर्धारित व्यवसायों का संघालन किया जा सके। एमसीए और सेबी परिपन्नों के अनुपालन में, वितीय वर्ष 2023-2024 के लिए कंपनी की एजीएम की सूचना और एकीकृत कार्षिक रिपोर्ट की उलेक्ट्रोनिक प्रतियां उन रायरयों को भेज दी गई हैं, जिनके ई-मेल पर्त कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत । ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.alenterprisesItd.in पर भी उपलब्ध है और इन्हें, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की वेबसाइट www.bsesndlo.com और नेशनल सिक्योरिटीज हिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com से भी डाउनलेंड किया जा सकता है। ईंगेल के जरिए एजीएम की सूचना भेजने का काम 03 सितंबर, २०२४ को पूरा हो गया है। वीसी/औएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने वल्ले सदस्यों को अधिनियम की घाटा १०३ के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

रिमोट ई-वॉटिंग की अवधि रविवार, 22 सितंबर, 2024 को सबह 9 बने शुर होगी और मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 की धाम 5 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, 18 सितंबर, 2024 की कट-ऑफ तारीख तक भौतिक रूप में या ईंग्रेट रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य २९ अगस्त. २०२४ घंठे एजीएम की सचना में मिदिष्ट व्यवसाय पर रिमोट ई-वोरिंग द्वारा अपना बोट डाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के क्षेयर प्राप्त करता है और कट-ऑफ तारीख़ बानी 18 सितंबर, 2024 के बाद मोटिस और वार्षिक दिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी भेजने के बाद कंपमी का सदस्य बन जाता है, यह एजीएम की सुचगा में दी गई रिमोट ई-मेटिंग के लिए उस प्रक्रिया का पालन कर सकता है।

इसके बाद बोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-बोटिंग मॉड्यूल को बिष्क्रिय कर-दिया जाएगा। एक बार सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव पर बोट दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

25 सितंबर, 2024 को वीहियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (ऑएवीएस) के माध्यम से एजीएम मे भाग लेने वाले सदस्य एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉबिक वोटिंग प्रणाली (ई-बोटिंग) के माध्यन से एजीएम के नोटिस में निर्दिष व्यवसायों पर इलेक्ट्रेंबिक रूप से एजीएम के दौरान अपना चोट डाल सकते हैं। हालांकि, केवल वे सदस्य, जो चीसी सविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना बोट नहीं डाला है और अन्यथा पैसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं. एजीएम में ई वोटिंग सिस्टम के माध्यम से घोट करने के पात्र होंगे।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अवसर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएबय्) और शेयरघारकों के लिए ई-कोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका www.evpting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या बुश्री बल्लबी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रयंशक, एनएमडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्ल कंपाउंड, सेमापति नाषट महर्गे, लोअर परेल, मुंबई - 400 013 को <u>evotingænsdi.co.in</u> पर अन्द्रोध भेज सकते हैं। बक्र बल्डोजर: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा ९१ के अन्तार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर; शेयर हटतांतरण पुस्तकें गुरुवार, १९ सितंबर, २०२४ से बुधवार, २५ सितंबर, २०२४ तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

बोर्ड के अदिश से. कृते ए.एफ. ऐस्सप्रहर्जन सिमिटेह नेहा श्रीवास्तव कंपमी सचिव एवं अमुपालम अधिकारी एम.चं. 43927

GROVY

दिनांक: 03-09-2024

स्थानः गई दिल्ली

ग्रोवी इंडिया लिमिटेड CIN: L741300L1885PLC021532

पंजीकृत कार्योलय: 122, प्रथम तल, विनोवापुरी, लाजपत नगर भाग ॥, नई दिल्ली-११००२४ वेब: www.grovyindia.com, ईंगेल: grovyindia@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") और इसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में प्रशादित और काँपाँदेर कार्य मंत्रालय (एमसीए) दवाई जारी साम्बन्य परिपत्र संख्या ०९/२०२३ दिनांक २५ सिदांबर २०२३, संख्या १०/२०२२ दिमाक २८ दिसंबर २०२२ और संख्या २०/२०२० दिमांक ०५ मई २०२० और भारतीय प्रतिभद्री विभिमय बोर्ड (सचीबहरता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ **("संबी सूचीकरण दिनियम")** द्वारा इस संबंध में जारी किए गए अन्य परिपत्री और सेबी परिपन संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अन्त्रसर 2023 के साथ परितः और वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए समय-समय पर जाटी प्रास्थिक परिपूर्वी के अनुपालन में **औरी इंडिया लिमिटेड की 39वीं वार्षिक आम बैठक ('**चर्जीएम**') स्रोमवार, ३० सितंबर, २०२४ को बोपहर १२.३० हमें,** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओरबीएम) सविधा के मध्यम से, एक सामान्य रुवन पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना कंपनी के व्यवसाय को अंजाम देने के िलर आयोजित की जाएगी, जैसा कि एजीएम की सुचना में निर्धारित है।

कंपनी अपने सदस्यों को बीसी/ओरबीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने की सुविधा और उपरोक्त परिपन्नों के अनुपालन में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैठक के दौरान मतदान की सुविधा प्रदान करने में संखब्द है। कट-ऑफ तिथि (यानी 23.09.2024) तक शेयर रखने वाले .सदस्य, जिनमें वे सदस्य भी शामिल है जिन्हें कंपनी/आरटीए के पास ईमेल आईडी उपलब्ध न होने के कारण कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त नहीं हुई है. एजीएम की सचना में दिए गए निर्देशों का पालन करके अपने वोट कर प्रयोग कर सकते हैं।

अतिम लाभाश, यदि एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को विभिन्न ओनलाइन हस्तातरण मोड के माध्यम से सीधे पहत्र सदस्यों के संबंधित बैंक खातों में जमा किया जाएगा, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने बैंक खाते के विवरण अपडेंट किए हैं। जिन शेयरधारकों ने कंपनी के साथ अपने बैंक खाते के बिबरण अपरेट नहीं किए हैं, उनके लिए लाभाश बारंट/डिमाड डाफ्ट/ चेक उनके पंजीकत पते पर भेजे जाएंगे, हालांकि लाभाश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, शेयरधारकों से अनरोध है कि वे अपने डिपॉलिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने सही बैंक साता नंबर, जिसमें 9 अंकों का MICR कोड और 11 अंकों का #SC कोड, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर शामिल हैं. साझा करके अपने बैंक विवरण अपडेंद्र करें। कृपया राजिस्टार और ट्रांसफर एजेंट का विवरण नोट करें: स्कार्डलाइन फाइनेश्वियल सर्विसेज प्राइवेट लिनिटेड, डी-१५३ए, पहली मंजिल, ओख़ला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-१, नई दिल्ली-११००२०, द्रशाष संख्या 011-40450193, ईमेल: compliances@skylinerta.com

उपरोक्त परिपन्नों के अनुसार, कंपनी वितीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें वार्षिक आम बैठक की सूचना भी शामिल है. उन सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजेगी, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत है। इसलिए जिन सदस्यो ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे ईमेल पते पंजीकृत करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करके इसे पंजीकृत करवा हैं। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के खाथ वार्षिक आम बैठक की सुधना भी कंपनी की वेबमाइट www.grovyindia.com और स्टॉक एक्सबॅज

की वेद्यक्षाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध कराई जाएगी।

कृते ग्रोबी इंडिया लिमिटेड E&AL/-

दिनांक: 03 सितंबर, 2024 स्थान: नई दिल्ली

सेपा मिश्रा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सवस्यता संख्या A73040

कल्याणी कमर्शियल्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: बीजी-223, संजय गाँधी ट्रांसपोर्ट नगर, जीटी करनाल रोड, नई दिल्ली-110042

CIN: L45300DL1985PLC021453

ई-मेल: kalyanicommercialslimited@gmail.com; वेबसाइट: www.kalyani.gvpltrucks.com; Ph. 011-43063223, 011-47060223

एतदृद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की उनतातीसवीं वार्षिक बैठक (एजीएम) वीरवार, 26 सितम्बर, 2024 को दोपहर 12:00 बजे बीजी -223, संजय गाँधी ट्रांसपोर्ट नगर, जीटी करनाल रोड, दिल्ली -110042 में एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय निष्पादन हेत् आयोजित की जायेगी। एमसीए परिपत्र दिनांक 05 मई, 2022 साथ में पठित परिपत्र 20/ 2022 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 एवं 05 मई, 2020 एवं सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसरण में एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों जिन्होंने अपने ई—मेल पते डिपॉटरीज/आरटीए/कम्पनी के पास पंजीकृत कराये थे और जिनके नाम सदस्यों की पंजिका/डिपॉटरीज के रिकार्ड में 30 अगस्त, 2024 को अंकित हैं, को भेज दी गई है।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 साथ में पठित कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमन, 2014 के नियम 20 जैसा कि समस–समय पर यथासंशोधित एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुसरण में पुनः सूचना प्रदान की जाती है किः

कम्पनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करा रही है ताकि वे एजीएम में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रानिकली अपना वोट डाल सकें।

ई–वोटिंग की अवधि सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 को प्रातः 09:00 बजे प्रारम्भ होगी।

ई–वोटिंग की अवधि बुधवार, 25 सितम्बर, 2024 को सायं 05:00 बजे पर समाप्त होगी।

कट-टॉफ तिथि: 19 सितम्बर, 2024.

एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉटरीज द्वारा बनाये गये लाभदाई स्वामी की पंजिका में कट-ऑफ तिथि को अंकित होगा केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सविधा के साथ साधारण बैठक में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का हकदार होगा।

जिन व्यक्तियों शेयर्स अर्जित किये हों और सूचना को भेजने के बाद लेकिन कट-ऑफ तिथि से पहले कम्पनी के सदस्य बन गये हों, वे एजीएम की सूचना में दियं गये अनुदेशों का पालन कर ई-वोटिंग के लिए लॉगइल आईडी

7. कट-ऑफ तिथि को भौतिक या अथवा डिमैटरीलाइज प्रपत्र में शेयर धारित सदस्य ई-वोटिंग की सविधा अथवा

साधारण बैठक में मत पत्र द्वारा वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

कोई भी सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक साधारण बैठक म भाग ले सकता है लेकिन बैठक में उसे फिर से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।

10. इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न अथवा शिकायत के मामले में सदस्य <u>http://</u> www.evoting.nsdl.com के अनुभाग पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुवल पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज) को संदर्भित कर सकते है अथवा सम्पर्क कर सकते हैं :-क) श्री प्रवीन शर्मा , डी-153ए, प्रथम मंजिल, ओखला इन्डिस्ट्रियल एरिया, फेस- I, नई दिल्ली- 110020: ईमेलः

parveen@skylinerta.com, दूरभाषः 011 30857575 श्री सौरभ अग्रवाल, (पूर्णकालिक निदेशक), कल्याणी कर्मशियल्स लिमिटेड, बीजी-223, संजय गाँधी ट्रांसपोर्ट नगर

जीटी करनाल रोड, नई दिल्ली-110042 ई–मेल kalyanicommercialslimited@gmail.com, दूरभाष.. 011-43063223, 11. कम्पनी एजीएम का आयोजन भौतिक रूप में करा रही है लेकिन उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, अठतीसवीं

एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रानिक प्रतियाँ कम्पनी के सभी सदस्यों जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉटरीज भागीदारों/ रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेन्ट (आटीए) के पास

12. एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट साथ में www.evoting.nsdl.com, के डाऊनलोड भाग पर उपलब्ध, कम्पनी की वेबसाइट https://www.kalyanicommercials.com एवं स्टॉक एक्सचेन्ज जहाँ पर कम्पनी शेयर सूचीबद्व है i.e. नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया लिमिटेड) के www.nseindia.com पर उपलब्ध

13. ईमेल पंजीकरण/अपडेटिंग का तरीकाः

भौतिक माध्यम में जिन शेयरधारित सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हैं, पैन एवं बें किंग विवरण कम्पनी/आरटीए के पास उपरोक्त जानकारी लिखित में कम्पनी को kalyanicommercialslimited@gmail.com पर अपडेट कराने एवं साथ में नाम शेयरधारक का नाम और पते का वर्णित हस्ताक्षरित आग्रह पत्र, बैंक विवरण और स्वअभिप्रमाणित पैन कार्ड की कॉपी/कोई अन्य पते का प्रमाण प्रदान कराने का अनुरोध है।

डिमैटरीलाइज प्रपत्र में शेयरधारित शेयरधारक जिन्होंने अपने डिपॉटरीज भागीदारों के पास अपने ईमेल पते, बैकिंग विवरण पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हैं उनसे उनके प्रसांगिक डिपॉटरीज भागीदारों के पास उनके ईमेल पते पंजीकरण/अपडेट कराने का अनुरोध है। 14. कम्पनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करा रही है ताकि वे एजीएम की सूचना में वर्णित

मदों पर अपना वोट डाल सकें। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए लॉगइन साख शेयरधारकों को ईमेल द्वारा कम्पनीज अधिानियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं)

विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की पंजिका एवं शेयर हस्तांतरण किताबें शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 से वीरवार 26 सितम्बर, 2024 (दोनों दिवस शामिल कर) एजीएम के उदेश्य हेतु बंद रहेंगी।

कते कल्याणी कमर्शियल्स लिमिटेड हस्ता०/-सौरभ अग्रवाल

नई दिल्ली-110042

(पूर्णकालिक निदेशक एवं सीएफओ) पताः बीजी-223, संजय गाँधी ट्रांसपोर्ट नगर, जीटी करनाल रोड,

ट्रेन में यात्रियों से जबरन वसूली के आरोपी 59 किन्नर गिरफ्तार

प्रयागराज, ३ सितंबर (भाषा)।

रेल यात्रियों से जबरन पैसे

गिरफ्तार किया है। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया कि प्रधान मुख्य सरक्षा आयक्त (आरपीएफ) अमिय नंदन सिन्हा के निरीक्षण में 19 अगस्त से दो सितंबर तक उत्तर मध्य रेलवे के तीनों मंडलों-प्रयागराज, आगरा और झांसी में किन्नरों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि इस अभियान में रेल अधिनियम 1989 की विभिन्न सूसंगत धाराओं के तहत 59

एक पखवाड़े में 59 किन्नरों को

क्षेत्रीय निरेत्तक, उत्तरि क्षेत्र, कम्पनी मामलॉ का मंत्रातय, बी-2 विंग, दूसरी मॉकेस, पं. दीनवमाल अंत्योदय मचन, सीजीओ कॉम्पलेवस, नई दिल्ली-110003, के समक्ष I

किन्नरों को गिरफ्तार किया गया।

कण्यभी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप छारा (४) और कम्पनी (निगमन) निवस, 2014 के नियम 30 के उपनिवस (5) के खच्ड (क) के मामले में ।

मै. जियोमेट्रिक सेक्यूरिटीज एंड एववाईवरी अक्षमेट सिनिटेड

(CIN: U671200xL2002PTC113640) जिसका यंजीकृत कार्यातय : 1/102, WHS, कीर्ति नगर, नई दिन्ती -110015 में है, के मामले में । (पाचिकाकर्ता)

मै. जियोमेट्रिक सेक्यूरिटील एंड एडवाईजरी प्राप्तवेट लिमिटेड के मामले में। आम जनता को यह सचित किया जाता है कि यह कम्पनी क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष कम्पनी अधिनिषम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइन का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हटाकर उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिये मुख्यार दिनांक 16 जगस्त, 2024 को | आयोजित जनाधारण जाम सभा में पारित विशेष संकल्प के लंदर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में

संदर्भावन की पुष्टि की मांग की गई है। कम्पनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानासरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो तो वह व्यक्ति या तो नियेशक विकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत वर्ज कर सकता है या एक झपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लेखित हो, के साथ प्रयमी आपरित इस सूचमा के प्रकाशम की तारीन्य से 14 दिलों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कम्पनी मामलों का मंत्रालय, वी-2 विंग, दुसरी मंजिल, प. वीनदयाल अल्योवय भवन, तीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक डारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कम्पनी को ऊपरोक्त पंजीकत कार्याभिय के पत्ते पर भी भेजें।

> मै. जियोमेद्रिक सेक्यूरिटीज एंड एउवाईवरी माइवेट स्विमिटेड मनोज दुआ

आदेवक की ओर से और उसके लिए

दिनांक: 03.09.2024 DIN:01010529 स्वान : दिल्सी

जनवरी,

भौतिक होल्डिंग

बांदा की शहजादी को हो सकती है फांसी, पिता ने प्रधानमंत्री मोदी से लगाई गुहार

देश

बांदा, 3 सितंबर (भाषा) ।

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक गांव की रहने वाली शहजादी को 20 सितंबर के बाद दुबई में कभी भी फांसी हो सकती है। शहजादी चार माह के एक बच्चे को कत्ल के सिलसिले में दुबई के आब धाबी जेल में काफी समय से बंद है।

शहजादी के पिता ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई है। इस बीच, जांच अधिकारी (आईओ) मोहम्मद अकरम ने मंगलवार की शाम एजंसी को बताया कि शहजादी का मामला दुबई से जुड़ा है, जिसमें उजैर, उसका फूफा फैज, बुआ नाजिया और नाजिया की सास अंजुम सहाना बेगम आरोपी हैं।

उन्होंने कहा कि पीडिता और आरोपियों का बयान दर्ज करने के लिए जल्द ही भारत में स्थित दुबई दुतावास को पत्राचार किया जाएगा।

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4)

और कंपनी (निगमन) मिथम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

ते मामले में कृहत कॉपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74999DL2012PTC287745) जिसका पंजीकत कार्यालयः मकान नं. 154 , छाउंड

फ्लोर, ब्लॉक-जी, पॉकेट-4, सैक्टर-16, रोहिणी, नई दिल्ली— 110085 में है, के मामले मेंआवेदक कंपनी /याचिकाकर्ता तदञ्जारा सार्वजनिक सुचना दर जातरे है कि यह कंपनी

केन्टीय खरकार के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का अस्ताव करती है. जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय शब्दीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "पश्चिम बंगाल" स्थानांतरित करने के लिए 19 अगस्त 2024 की आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पृष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रत्सावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकावत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपध यत्र जिसमें चनके हित का प्रकार और जसके विरोध का कारण रहिलखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सचना के प्रकारत की तारीख से चीदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दसरा तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय मनन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली—110003 पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति अखेदक कंपनी को उनके निम्बलिखित पंजीकृत कार्यालय यहाँ पर मी भेजें । मकान नं. 154 , ग्राचंड पलोर, थ्लॉक जी, पॉकेट -4, सैक्टर--16, रोहिणी, नई दिल्ली-- 110085 आवेदक के लिए और आवेदक की और से

कहत कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड दिनांक: 03.09.2024 सचिन कुमार जैन (निदेशक) डीआई एन: 07617986 स्थानः नई दिल्ली

AVRO INDIA LIMITED

सीआईएनः L25200UP1996PLC101013

पंजीकृत कार्यालयः ए-7/36-39, जी.टी. रोड औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण में, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग

कंपाउंड, गाजियाबाद-201009, उत्तर प्रदेश,

फोनः 0120-4376091 ईमेलः info@avrofurniture.com

वेबसाइटः www.avrofurniture.com

28वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और

ई-वोटिंग सुचना

सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 20 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17 / 2020 दिनांक 13

अप्रैल, 2020य 20 / 2020 दिनांक 5 मई, 2020,02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी,

2021: 19 / 2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021: 21 / 2021 दिनांक 14 दिसंबर,

2021: 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 के अनुसार: 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर,

2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 9/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्र (इसके

बाद ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) और परिपत्र संख्या

सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15

सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 05 जनवरी, 2023 और भारतीय प्रतिभूति

और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्र (इसके बाद ''सेबी

परिपत्र''के रूप में संदर्भित) (इसके बाद सामूहिक रूप से ''परिपत्र''के रूप में

संदर्भित), कंपनियों को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के

''ओएवीएम'') के माध्यम से आम बैठक आयोजित करने की अनुमति है। इसलिए

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और

प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') और एमसीए

परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की आगामी

असाधारण आम बैठक (''ईजीएम'') शनिवार, 21 सितंबर, 2024 को दोपहर 01:00

बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों

उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार, ईजीएम की सूचना केवल

उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते

कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (''आरटीए'') या डिपॉजिटरी

प्रतिभागियों (''डीपी'') / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। ईजीएम की सूचना

कंपनी की वेबसाइट यानी www.avrofurniture.com, नेशनल स्टॉक

एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nse.india.com और

बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी

अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना

यदि आपका ईमेल पता पहले से ही कंपनी/आरटीए या डीपी/डिपॉजिटरी के

पास पंजीकृत है, तो ईजीएम की सूचना और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण

आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे जाएंगे। यदि आपने कंपनी/आरटीए या

डीपी / डिपॉजिटरी के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, तो कृपया

ई-वोटिंग के लिए सूचना और लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल

cs@avrofurniture.com पर भी भेज सकते हैं।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम

44 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के

अनुपालन में, जैसा कि एमसीए परिपत्रों के साथ संशोधित किया गया है, कंपनी

अपने शेयरधारकों को एनएसडीएल द्वारा व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सेवाओं के

माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी ईजीएम

के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करेगी। ईजीएम

के दौरान दूरस्थ ई—वोटिंग प्रणाली में भागीदारी या ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य कंपनी को चिह्नित प्रतिलिपि के तहत ऊपर

उल्लिखित पते और ईमेल आईडी पर आरटीए से संपर्क कर सकते हैं या लिख

वोट डालने का तरीका ईजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा।

कंपनी के आरटीए यानी मास सर्विसेज लिमिटेड को टी–34, द्वितीय

तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110020 पर

विधिवत दायर फॉर्म नंबर आईएसआर-1 में अनुरोध भेजें, जिसे

कंपनी की वेबसाइट www.avrofurniture.com पर निवेशक

संबंध टैब के साथ–साथ आरटीए की वेबसाइट यानी

www.masserv.com पर डाउनलोड टैब के तहत डाउनलोड

किया जा सकता है। आप फॉर्म नंबर 1 आईएसआर-1 को डिजिटल

हस्ताक्षर के साथ आरटीए की ईमेल आईडी

investor@masserv.com पर कॉपी मार्क करके कंपनी को

कुपया अपने डीपी से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया

के अनुसार अपना ईमेल पता और बैंक खाता और बैंक विवरण

एवरो इंडिया लिमिटेड के लिए

(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

हस्ता / -

पता पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

ई-मेल पते और बैंक खाते के विवरण का पंजीकरण/अपडेशन

पंजीकृत करें।

को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी।

बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''वीसी'',

सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 /

जिले के मटौंध थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव के रहने वाले शब्बीर ने मंगलवार को एजंसी को बताया कि दुबई में आब धाबी की अलबतवा जेल में बंद उनकी बेटी शहजादी (29) ने रविवार को जेल से फोन कर उन्हें बताया कि 20 सितंबर के बाद उसे कभी भी फांसी दी जा सकती है।

शब्बीर ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को ईमेल के जरिए पत्र भेजकर उनसे बेटी शहजादी की जान बचाने की गृहार लगाई है।

उन्होंने बताया कि उनकी बेटी शहजादी का बचपन में चेहरा जल गया था और वह पूर्णबंदी के दौरान बांदा की रोटी बैंक नामक संस्था में काम करती थी, इसी दौरान फेसबुक के जरिए आगरा के उजैर से उसकी दोस्ती हो गई और उसने उसे नवंबर 2021 में दवा कराने के बहाने दुबई भेज

महिला का शव मिला, बेटी लापता

पालघर, ३ सितंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक नाले से 28 वर्षीय एक महिला का शव बरामद हुआ है जिसके हाथ-पैर एक बड़े पत्थर से बंधे हुए थे। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सावरे गांव से सोमवार को शव बरामद मनोर पुलिस ने शव को

पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि पीड़िता को दो वर्ष की पुत्री भी मामला दर्ज कर लिया है। लापता है और पुलिस ने उसकी तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि दोपहर में कुछ राहगीरों ने महिला का शव देखा और स्थानीय पुलिस को इसकी सचना दी।

ने शव बरामद किया और मृतक को पहचान सुस्मिता दावरे के नहीं किया गया है।

रूप में की गई। उन्होंने बताया कि महिला के हाथ-पैर रस्सी से एक बड़े पत्थर से बंधे हए थे, जिससे हत्या का अंदेशा होता है। उन्होंने संदेह जताया कि महिला को हत्या कर शव को पहाडी के किनारे पानी में फेंक

दिया गया होगा। अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात के खिलाफ हत्या तथा सब्त नष्ट करने का उन्होंने बताया कि हत्या का मकसद अभी ज्ञात नहीं हुआ है। अधिकारी के अनुसार, कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि पीड़िता का पति मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करता है। पुलिस मामले मौके पर पहुंच पुलिस दल की जांच कर रही है और फिलहाल किसी को गिरफ्तार

अदालत ने जेल अधिकारियों को लगाई फटकार

मुंबई, 3 सितंबर (भाषा)। बंबई उच्च न्यायालय ने 2010 के 'जर्मन बेकरी' विस्फोट मामले में एकमात्र दोषी हिमायत बेग को पैरोल देने से इनकार करते समय 'विवेक का प्रयोग नहीं करने 'के लिए मंगलवार को नासिक केंद्रीय जेल के अधिकारियों को फटकार लगाई।

MODI SPINNING & WEAVING MILLS CO. LTD. Regd. Office: Modinagar-201201 (U.P.) CIN No. U17111UP1948PLC001428

E-MAIL ID: mswmcoltd@gmail.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 26th September, 2024 to 27th September,

For Modi Spinning & Weaving Mills Co. Ltd. Dated: 03.09.2024 Place: Rajendra Sharma Modinagar Dy. Company Secretary

By order of the Board,

सावजानक सूचना केन्द्र सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रार,

दिल्ली के समक्ष सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) तथा सीमित दायित्व भागीदारी नियमावली, 2009 के नियम 17 के मामले में तथा कॉपियस कैपिटल एडवायजर्स एलएलपी जिसका पंजीकृत कार्यालय 90/31बी, प्रथम तल, मालवीय नगर, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली-110017 आईएन में है, आवेदक के मामले में। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "दिल्ली" राज्य से "हरियाणा" राज्य में उसके पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने के लिये सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3)

के अंतर्गत यह एलएलपी कम्पनी रजिस्टार, दिल्ली के पास

एक आवेदन देने का प्रस्ताव करता है। एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उक्त पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक एलएलपी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर कम्पनी रजिस्टार, दिल्ली के पास अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें। कॉपियस कैपिटल एडवायजर्स

एलएलपी के लिये हस्ता./ सौरभ कुमार (पदनामित पार्टनर) DPIN: 08202485

सार्वजनिक सूचना प्रपन्न से. आईएनसी-26 [कंपनी (निगमन) चिवभावली, 2014 के निवम 30 के अनुपालन में] केन्द्र सरकार, होतीय निर्देशक उत्तरीकेत्र के रायक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम

30 (6) (ए) के मामले में

वस्था इंकोकैण्ड्स श्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिंगिटेड जिस का पंजीकृत कार्यालय 205 208, तीसरी गंजिल, पीकॉक लेन, शाहपुर जाट, नई दिल्ली - 110049 में है (CIN: U01403DL2008PTC173221) कं भागते में-याचिकाकर्ता / आवेदक एतदारा आमजनता को सुचित किया जाता है कि राजिस्ट्री कृत कार्यालय क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रादेश राज्या" में जसके पंजीदृत्त कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 03.09. 2024 को आयोजित असाधारण आम रामा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेगोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कन्पनी अविनियम, 2013

वरि चारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करते का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रश्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हिल प्रणादित होता हो. वे उसके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय में आयंदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आगति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली 110003 में

जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से मेजें। कृते एवं के लिये क्युपा इकोक्रण्डस प्रोजेक्ट्स प्राइंबेट लिशिटेड हस्ता /-

सुमित बंसल विधि: 04.09.2024

प्रणयक्षार निदेशक स्थानः नद्वीदेल्ली DIN: 01730490

सकते हैं।

स्थानः गाजियाबाद

दिनांकः 28 अगस्त, 2024